

CLASS : 12th (Sr. Secondary)

Code No. 2008

Series : SS-M/2017

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SET : A

लेखाशास्त्र

ACCOUNTANCY

[Hindi and English Medium]

ACADEMIC/OPEN

(Only for Fresh Candidates)

(Evening Session)

Time allowed : 3 hours]

[Maximum Marks : 60

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित प्रश्न **25(11+7+7)** हैं।

*Please make sure that the printed question paper are contains **25(11+7+7)** questions.*

- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये **कोड नम्बर** तथा **सेट** को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।

*The **Code No.** and **Set** on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.*

- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.

- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/पन्ने न छोड़ें।

Don't leave blank page/pages in your answer-book.

- उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न काटें।

Except answer-book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike the written answer.

- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।

Candidates must write their Roll Number on the question paper.

2008/(Set : A)

P. T. O.

- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.**

सामान्य निर्देश :

- यह प्रश्न-पत्र **तीन** भागों में विभाजित है :
भाग-अ : अलाभकारी संस्थाएँ तथा साझेदारी खाते।
भाग-ब : कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण।
भाग-स : कम्प्यूटरीकृत लेखांकन।
- भाग-अ अनिवार्य है।** परीक्षार्थी अपनी इच्छा से **भाग-ब** तथा **भाग-स** में से कोई एक भाग हल करें।
- सभी** प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं।
- प्रश्न संख्या **11, 17 व 18** में आन्तरिक छूट उपलब्ध है।

General Instructions :

- This question paper is divided into **three** parts :
Part-A : Not for Profit and Partnership Accounts.
Part-B : Company Accounts and Analysis of Financial Statements.
Part-C : Computerised Accounting.
- Part-A is compulsory.** Candidates have to attempt any **one** part from **Part-B** and **Part-C** of their choice.
- All questions are to be attempted. Marks of each question are indicated against it.
- Internal choice is available in Question Nos. **11, 17 and 18.**

भाग - अ

PART - A

(अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते)

(Not for Profit and Partnership Accounts)

2008/(Set : A)

1. आय-व्यय खाते से आप क्या समझते हैं ?

1

What do you mean by Income and Expenditure Account ?

2. भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा बताइए। 1

Define partnership according to Indian Partnership Act, 1932.

3. 'ए' और 'बी' एक फर्म में लाभों को 5 : 3 के अनुपात में विभाजित करते हुए साझेदार हैं। उन्होंने 'सी' और 'डी' को नए साझेदारों के रूप में फर्म में प्रवेश दिया। ए ने अपने हिस्से का $\frac{1}{2}$ भाग 'सी' को दिया तथा 'बी' ने $\frac{1}{4}$ भाग अपने हिस्से में से 'डी' को दिया। उनके नए लाभ-हानि अनुपात की गणना करें। 1

A and B are partner in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5 : 3. They admit C and D as a new partners. A sacrifice $\frac{1}{2}$ of his share in favour of C and B sacrifice $\frac{1}{4}$ of his share in favour of D. Calculate their new profit sharing ratio.

4. राम, रहीम, कृष्ण और अर्जुन 3 : 2 : 1 : 4 के अनुपात में लाभों को विभाजित करते हुए एक फर्म में साझेदार हैं। राम फर्म से सेवानिवृत्त होता है। समझौते के अनुसार राम का हिस्सा रहीम व कृष्ण 3 : 2 के अनुपात में लेंगे। रहीम, कृष्ण और अर्जुन के नये लाभ-हानि अनुपात की गणना करें। 1

Ram, Rahim, Krishan and Arjun are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2 : 1 : 4. Ram decide to retire from the firm and his share, received by Rahim and Krishan in the ratio of 3 : 2 according agreement. Calculate the New Profit sharing ratio of Rahim, Krishan and Arjun.

5. ख्याति का अर्थ लिखें।

1

Write the meaning of Goodwill.

6. साझेदारी के समापन से आप क्या समझते हैं ? 1

What is meant by dissolution of partnership ?

7. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आर्ट्स क्लब ने चन्दा इस प्रकार प्राप्त किया :

2014-15	5,000	
2015-16	1,08,000	
2016-17	<u>3,000</u>	
		1,16,000

अतिरिक्त सूचनाएँ :

कुल सदस्य संख्या	240	
वार्षिक चन्दा फीस	` 500	
1 अप्रैल, 2015 को अदत्त चन्दा	` 9,000	
31 मार्च, 2016 को आय व व्यय खाते में चन्दे की राशि को दर्शाएँ।		4

Subscriptions received during the year ended 31st March, 2016 by Arts Club were as under :

2014-15	5,000	
2015-16	1,08,000	
2016-17	<u>3,000</u>	
		1,16,000

Additional Information :

Total number of members	240
Annual subscription fee	` 500
Subscription outstanding on April 1, 2015	` 9,000

Show the amount of subscription in Income and Expenditure Account for the year ended 31st March, 2016.

8. 'ए', 'बी' और 'सी' का लाभ-हानि अनुपात क्रमशः 4 : 2 : 1 था, लेकिन आपसी समझौते के अनुसार 'सी' का हिस्सा किसी भी वर्ष ₹ 18,000 से कम नहीं होगा। 2015 वर्ष का फर्म का लाभ ₹ 1,05,000 था। साझेदारों में लाभ-हानि का विभाजन कीजिए। 4

A, B and C were in partnership sharing profits in the ratio of 4 : 2 : 1. It being provided that in no year C's share be less than ₹ 18,000. The profit for the year 2015 amounted to ₹ 1,05,000. You are required to show the appropriation of profit between the partners.

9. 'पी' और 'क्यू' लाभों को 3 : 2 में विभाजित करते हुए फर्म में साझेदार हैं। उनकी पूँजी ₹ 80,000 और ₹ 50,000 क्रमशः है। उन्होंने 'जेड' को नया साझेदार बनाया। 'जेड' लाभों में अपने $\frac{1}{5}$ भाग के लिए ₹ 60,000 पूँजी के रूप में लाता है। उपर्युक्त सूचनाओं के आधार पर ख्याति की गणना करें तथा नया लाभ-हानि अनुपात ज्ञात करें। 4

P and Q are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2. Their capital are ₹ 80,000 and ₹ 50,000 respectively. They admit Z as a new partner. Z brings in ₹ 60,000 as his capital for $\frac{1}{5}$ th share in the profits. Find out the amount of goodwill on the basis of the above information and also calculate their new profit sharing ratio.

10. 'एल' और 'एम' 4 : 3 के अनुपात में लाभ बाँटते हुए एक फर्म में साझेदार थे। 31 मार्च, 2016 को फर्म का समापन हो गया। निम्न व्यवहारों की आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए : 4

- ₹ 20,000 के देनदार, 'एल' ने ₹ 18,000 में लिए।
- ₹ 15,000 के लेनदारों को 5% कटौती पर भुगतान किया।
- समापन के ₹ 1,000 'एम' ने दिये।
- वसूली खाते में हानि ₹ 7,000 है।

L and M were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4 : 3. The firm was dissolved on 31st March, 2016. Pass necessary Journal Entries for the following transactions :

- Debtors ₹ 20,000 were taken over by L for ₹ 18,000.

- (ii) Creditors ` 15,000 were paid at a discount of 5%.
- (iii) Expenses of dissolution ` 1,000 were paid by M.
- (iv) Loss on realization was ` 7,000.

11. 'के' और 'एल' का 31 मार्च, 2016 को चिट्ठा इस प्रकार है :

उत्तरदायित्व	राशि `	सम्पत्तियाँ	राशि `
देय विपत्र	5,000	रोकड़	5,000
विविध लेनदार	29,000	बैंक	20,000
अदत्त-व्यय	1,000	विविध देनदार	30,000
		स्टॉक	20,000
पूँजी :		प्लांट और मशीनरी	50,000
'के' 90,000		भवन	75,000
'एल' 75,000	1,65,000		
	2,00,000		2,00,000

उपरोक्त तिथि को 'एम' को निम्न शर्तों पर फर्म में प्रवेश होता है :

- (i) 'एम' फर्म में $\frac{1}{4}$ भाग के लिए ` 50,000 पूँजी व ` 30,000 ख्याति के रूप में लाता है।
- (ii) मशीनरी का मूल्य ` 60,000 हुआ और भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई।
- (iii) स्टॉक का मूल्य ` 2,000 से कम किया गया तथा देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान बनाया जायेगा।

आपको पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूँजी खाते और पुनर्गठित फर्म का चिट्ठा तैयार करना है।

The following is the Balance Sheet of K and L as on 31st March, 2016 :

Liabilities	Amount `	Assets	Amount `
Bills payable	5,000	Cash in hand	5,000
Sundry creditors	29,000	Cash at Bank	20,000
Outstanding exp.	1,000	Sundry debtors	30,000
Capital :		Stock	20,000
K 90,000		Plant and Machinery	50,000
L 75,000	1,65,000	Building	75,000
	2,00,000		2,00,000

On this date M's is admitted as a new partner on the following conditions :

- 'M' brings in ` 50,000 as capital and ` 30,000 as goodwill for his $\frac{1}{4}$ th share in profits.
- Machinery revalued at ` 60,000 and value of building is increased by 10%.
- Value of stock decreased by ` 2,000 and provision for doubtful debts is to be created on debtors @ 5%.

You are required to prepare Revaluation Account, Partners' Capital Account and a Balance Sheet of the new firm.

अथवा

OR

- उन चार मदों के नाम लिखिए जो मृतक साझेदार के उत्तराधिकारियों को देय राशि की गणना करने के लिए उसके खाते में क्रेडिट की जाती हैं। 4
- किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय ख्याति के समायोजन की विधि का वर्णन कीजिए। 4

- (a) Name four items which are credited to the account of a deceased partner while calculating the amount due to his legal representatives.
- (b) Discuss the method of treatment of goodwill at the time of retirement of a partner.

भाग - ब

PART - B

(कम्पनी खाते तथा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

(Company Accounts and Analysis of Financial Statements)

12. स्वामियों की समता क्या है ? 1

What is owners' equity ?

13. प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है ? 1

What is trend analysis ?

14. आपको निम्नलिखित सूचना दी गयी है : 4

चालू अनुपात = 2.5

कार्यशील पूँजी = ₹ 90,000

ज्ञात कीजिए :

(अ) चालू सम्पत्तियाँ

(ब) चालू दायित्व

Following information is given to you :

Current ratio = 2.5

Working capital = ₹ 90,000

Find out :

2008/(Set : A)

- (a) Current assets
(b) Current liabilities

15. निम्नलिखित सूचना से निवेशन क्रियाओं से शुद्ध रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए :

	31-3-2015 `	31-3-2016 `
भवन (w.d.v.)	6,00,000	7,50,000

अतिरिक्त सूचनाएँ :

- (i) ` 1,00,000 का भवन, जिस पर एकत्रित ह्रास ` 30,000 है, ` 60,000 में बेच दिया गया।
(ii) 31-3-2016 को समाप्त वर्ष में ह्रास लगाया गया ` 50,000।
4

Calculate net cash flows from investing activities from the following information :

	31-3-2015 `	31-3-2016 `
Building (w.d.v.)	6,00,000	7,50,000

Additional Information :

- (i) Building costing ` 1,00,000 on which ` 30,000 had accumulated as depreciation was sold for ` 60,000.
(ii) Depreciation charged on building for the year ended 31-3-2016 ` 50,000.

16. रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने की उपयोगिताएँ क्या हैं ? 4

What are the uses of preparing a cash flow statement ?

17. राज लिमिटेड ने ` 10 प्रत्येक के 20,000 अंशों का ` 1 प्रति अंश अधिलाभ पर निर्गमित किए। राशि इस प्रकार देय है :

आवेदन पर	3
आबंटन पर	5 (अधिलाभ सहित)
प्रथम और अन्तिम याचना पर	3

सभी अंशों पर अभिदान प्राप्त हुआ और कम्पनी ने सभी देय राशि, 200 अंशों पर आबंटन और माँग राशि के अतिरिक्त प्राप्त की। इन अंशों को जब्त कर लिया गया और ` 12 प्रत्येक के पूर्ण प्रपत्र अंशों में पुनर्निर्गम किया गया। कम्पनी की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

8

Raj Ltd. offers 20,000 share of ` 10 each at a premium of ` 1 per share to the public. The amount is payable as follows :

,

On Application	3
On Allotment	5 (including premium)
On First and Final call	3

All shares are subscribed. Company received all money except allotment and 1st & final call money on 200 shares. These shares were forfeited and re-issued as fully paid at ` 12 each.

Pass necessary Journal Entries in the books of the company.

अथवा

OR

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(अ) अंशों का कटौती पर निर्गमन	4
(ब) अंशों का हरण	4

Write short notes :

- (a) Issue of shares at discount
- (b) Forfeiture of shares

2008/(Set : A)

18. एक कम्पनी की खाता पुस्तकों में 31 मार्च, 2016 को निम्नलिखित शेष उपलब्ध हुए :

10% ऋणपत्र	8,00,000
ऋणपत्र शोधन कोष खाता	8,00,000
ऋणपत्र शोधन कोष विनियोग	8,00,000

(` 10,00,000 प्रतिभूतियों में अंकित मूल्य)

उपर्युक्त तिथि पर विनियोग अंकित मूल्य के 90% पर बेच दिये गए। ऋणपत्रों को यथानुसार शोधन कर दिया गया।

ऋणपत्र शोधन कोष खाता तथा ऋणपत्र शोधन कोष विनियोग खाता तैयार करें।

8

The following are the balances in the books of a company as on 31st March, 2016 :

10% Debentures	8,00,000
Debenture Redemption Fund	8,00,000
Debenture Redemption Fund Investment	8,00,000

(Face value of Securities ` 10,00,000)

On the above date investment were sold 90% of the face value and debenture were redeemed accordingly.

Prepare Debenture Redemption Fund Account and Debenture Redemption Fund Investment Account in the book of the Company.

अथवा

OR

ऋणपत्रों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। 8

Explain the various type of Debentures.

12. लेनदेन प्रसंस्करण प्रणाली से आप क्या समझते हैं ? 1
What do you mean by Transaction Processing System ?
13. डाटा वैलिडेशन क्या है ? 1
What is Data Validation ?
14. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन और मैनुअल लेखांकन में अन्तर बताइए। 4
Difference between manual and computerized accounting system.
15. डाटाबेस at the back end कितने प्रकार के होते हैं ? 4
What are the types of database at the back end ?
16. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन में लाभ-हानि खाता कैसे तैयार किया जाता है ? 4
How prepare the profit and loss account in computerized accounting ?
17. (i) wizard (ii) by design view से फार्म बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें। 8
Describe the procedure for creating form (i) wizard (ii) by design view.

अथवा

OR

लेखांकन रिपोर्ट क्या है ? एक रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें। 8

What is an Accounting Report ? Explain the procedure of creating reports.

18. स्प्रेडशीट के अनुप्रयोगों को लेखांकन में समझाइए। 8
Describe the applications of spreadsheet in accounting.

(13)

अथवा

OR

2008/(Set : A)

कम्प्यूटेशनल और लॉजिकल कार्यों में अन्तर स्पष्ट कीजिए। 8

Differentiate between computational and logical functions.

2008/(Set : A)

P. T. O.

CLASS : 12th (Sr. Secondary)

Code No. 2008

Series : SS-M/2017

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SET : B

लेखाशास्त्र

ACCOUNTANCY

[Hindi and English Medium]

ACADEMIC/OPEN

(Only for Fresh Candidates)

(Evening Session)

Time allowed : 3 hours]

[Maximum Marks : 60

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित प्रश्न **25(11+7+7)** हैं।

*Please make sure that the printed question paper are contains **25(11+7+7)** questions.*

- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये **कोड नम्बर** तथा **सेट** को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।

*The **Code No.** and **Set** on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.*

- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.

- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/पन्ने न छोड़ें।

Don't leave blank page/pages in your answer-book.

- उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न काटें।

Except answer-book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike the written answer.

- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।

Candidates must write their Roll Number on the question paper.

2008/(Set : B)

P. T. O.

- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.**

सामान्य निर्देश :

- यह प्रश्न-पत्र **तीन** भागों में विभाजित है :
भाग-अ : अलाभकारी संस्थाएँ तथा साझेदारी खाते।
भाग-ब : कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण।
भाग-स : कम्प्यूटरीकृत लेखांकन।
- भाग-अ अनिवार्य है।** परीक्षार्थी अपनी इच्छा से **भाग-ब** तथा **भाग-स** में से कोई एक भाग हल करें।
- सभी** प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं।
- प्रश्न संख्या **11, 17 व 18** में आन्तरिक छूट उपलब्ध है।

General Instructions :

- This question paper is divided into **three** parts :
Part-A : Not for Profit and Partnership Accounts.
Part-B : Company Accounts and Analysis of Financial Statements.
Part-C : Computerised Accounting.
- Part-A is compulsory.** Candidates have to attempt any **one** part from **Part-B** and **Part-C** of their choice.
- All questions are to be attempted. Marks of each question are indicated against it.
- Internal choice is available in Question Nos. **11, 17 and 18.**

भाग - अ

PART - A

(अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते)

(Not for Profit and Partnership Accounts)

2008/(Set : B)

1. आय-व्यय खाता क्यों तैयार किया जाता है ? 1

Why is Income and Expenditure Account prepared ?

2. क्या यह जरूरी है कि साझेदारी ठहराव लिखित में हो ? 1

Is it necessary to have a partnership agreement in writing ?

3. ए, बी और सी 5 : 3 : 2 के अनुपात में लाभ बाँटते हुए साझेदार हैं। डी को साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है। नया लाभ-हानि अनुपात 3 : 2 : 2 : 3 है, त्याग अनुपात की गणना करें। 1

A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5 : 3 : 2. They admit D into partnership. The New Profit Sharing ratio of partners is 3 : 2 : 2 : 3. Calculate the sacrificing ratio.

4. राम, रहीम और कृष्ण 3 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ बाँटते हुए साझेदार हैं। राम साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है। प्राप्ति अनुपात ज्ञात करें। 1

Ram, Rahim and Krishan are partners in a firm sharing profit ratio 3 : 2 : 1. Ram decide to retire from the firm. Calculate gaining ratio.

5. उन दो परिस्थितियों का वर्णन करें जिनपर साझेदारी में साझेदार की स्थायी पूँजी में परिवर्तन हो जाता है। 1

List any two circumstances under which the fixed capital of partners may change.

6. वसूली खाता क्या है ? 1

What is Realisation Account ?

7. 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में एक क्लब द्वारा चन्दा इस प्रकार प्राप्त किया :

(4)

2008/(Set : B)

2014-15	5,000	
2015-16	1,08,000	
2016-17	<u>3,000</u>	1,16,000

अतिरिक्त सूचनाएँ :

कुल सदस्य संख्या 240

वार्षिक चन्दा फीस ` 500

1 अप्रैल, 2015 को अदत्त चन्दा ` 9,000

31 मार्च, 2015 व 31 मार्च, 2016 के स्थिति विवरण में चन्दे से सम्बन्धित राशि दर्शाएँ।

Subscriptions received during the year ended 31st March, 2016 by a Club were as under :

2014-15	5,000	
2015-16	1,08,000	
2016-17	<u>3,000</u>	1,16,000

Additional Information :

Total number of members 240

Annual subscription fee ` 500

Subscription outstanding on April 1, 2015 ` 9,000

Show the amount of subscription in the Balance Sheet on 31st March, 2015 and 31st March, 2016.

8. 'एक्स' और 'वाई' एक फर्म में साझेदार हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार :

X and Y are partners in a firm. According to their partnership deed :

- (i) ` 40,500 तक के लाभ को बराबर बाँटेंगे। ` 40,500 से आधिक्य को 3 : 2 के अनुपात में बाँटेंगे।

2008/(Set : B)

(5)

2008/(Set : B)

- (ii) 'एक्स' ₹ 7,500 वार्षिक वेतन पाने का अधिकारी है और 'वाई' कमीशन व वेतन घटाने के बाद शुद्ध लाभ का 8% कमीशन पाने का अधिकारी है। वर्ष का लाभ, वेतन व कमीशन घटाने से पूर्व ₹ 56,757 है।

लाभ-हानि समायोजन खाता बनाइए।

4

- (i) Profit upto ₹ 40,500 are divided equally and excess of ₹ 40,500 are divided in the ratio of 3 : 2.
- (ii) X is entitled to get an annual salary of ₹ 7,500 and Y is entitled to get 4% commission on net profit after charging commission and A's salary. Profit for the year was ₹ 56,757 before charging commission and salary.

Prepare Profit and Loss Appropriation Account.

9. 'एक्स', 'वाई' और 'जेड' 1 : 2 : 3 के अनुपात में लाभ बाँटते हुए साझेदार हैं। 'जेड' अवकाश ग्रहण करता है और उसके पूँजी खाते में क्रेडिट शेष ₹ 1,80,000 (संचय व पुनर्मूल्यांकन खाते पर लाभ का समायोजन करने के बाद) है। एक्स और वाई ने उसके full settlement में ₹ 2,25,000 का भुगतान किया। बिना ख्याति खाता खोले ख्याति की प्रविष्टि दीजिए, यदि नया लाभ-हानि अनुपात 1 : 3 तय किया गया हो तो।

4

X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 1 : 2 : 3. Z retires and his capital after making adjustment for reserves and profit on revaluation stands at ₹ 1,80,000. X and Y agreed to pay him ₹ 2,25,000 in full settlement of his claim. Record necessary Journal Entry for the treatment of goodwill if the new profit sharing ratio is decided at 1 : 3.

10. 'ए' और 'बी' 3 : 2 के अनुपात में लाभ बाँटते हुए साझेदार हैं। फर्म के समापन के समय कुल सम्पत्तियाँ ₹ 5,00,000 और कुल दायित्व ₹ 1,00,000 है। सम्पत्तियों से ₹ 4,20,000 वसूल हुए। समापन व्यय ₹ 5,000 है। वसूली खाता तैयार कीजिए।

4

2008/(Set : B)

P. T. O.

(6)

2008/(Set : B)

A and B are partners sharing profits in the ratio of 3 : 2, at the time of dissolution of the firm, total assets are ₹ 5,00,000 and total liabilities are ₹ 1,00,000, amount realized on sale of assets is ₹ 4,20,000 and realisation expenses are ₹ 5,000. Prepare Realization Account.

11. 'ए' और 'बी' 3 : 2 के अनुपात में लाभ बाँटते हुए साझेदार हैं। 31 मार्च, 2016 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार है :

उत्तरदायित्व	राशि (₹)	सम्पत्तियाँ	राशि (₹)
लेनदार	18,000	नकद	22,000
लाभ-हानि खाता	12,000	देनदार 35,000	
		घटाया, आयोजन <u>3,500</u>	31,500
पूँजी :		स्टॉक	20,000
'ए' 24,000		फिक्चर्स	7,500
'बी' 27,000	51,000		
	81,000		81,000

'सी' को $\frac{1}{5}$ भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया। 'सी' ₹ 30,000 पूँजी के रूप में लाया लेकिन अपने हिस्से का ख्याति (Premium) के ₹ 12,000 नकद नहीं लाया। उसे निम्न शर्तों पर प्रवेश दिया :

- स्टॉक का मूल्यांकन 10% कटौती पर किया गया तथा आयोजन ₹ 1,000 से कम किया गया और फिक्चर्स का मूल्य शून्य आंका गया।
- एक ₹ 500 बिजली का बिल पुस्तकों में नहीं लिखा गया और ₹ 1,500 का क्लेम फर्म के विरोध है, जिसे भविष्य में भुगतान करना है।

पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूँजी खाते तथा नया स्थिति विवरण तैयार करें। 8

A and B are partners sharing profits ratio of 3 : 2. On 31st March, 2016 their Balance Sheet as follows :

2008/(Set : B)

(7)

2008/(Set : B)

Liabilities	Amount ,	Assets	Amount ,
Creditors	18,000	Cash	22,000
P & L A/c	12,000	Debtors 35,000	
		Less : Prov. <u>3,500</u>	31,500
Capital :		Stock	20,000
A 24,000			
B 27,000	51,000	Fixtures	7,500
	81,000		81,000

C is given $\frac{1}{5}$ th share in profits of the firm. C brings in ` 30,000 as his capital but C does not bring his share of goodwill in cash, ` 12,000, in the following terms :

- Stock to be discounted at 10% and provision for doubtful debts be reduced by ` 1,000 and fixtures are valueless.
- A bill for ` 500 for electric charges has been omitted to be recorded and there is a claim against the firm for damages to ` 1,500. This will have to be paid in future.

Prepare Revaluation Account, Capital Account and New Balance Sheet of the firm.

अथवा

OR

एक साझेदार की मृत्यु की स्थिति में, मृतक साझेदार के हिस्से का लाभ, वर्ष के लाभों में गणना करने की विधियों का वर्णन करें।

8

Explain with examples various methods of computing the share of profits in case of death of a partner.

2008/(Set : B)

P. T. O.

(कम्पनी खाते तथा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

(Company Accounts and Analysis of Financial Statements)

12. वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किसे कहते हैं ? 1

What is Financial Statement Analysis ?

13. वित्तीय विवरणों के कोई **दो** नाम लिखें। 1

Give any **two** name of Financial Statements.

14. आपको निम्नलिखित सूचना दी गई है :

चालू अनुपात = 1.5

कार्यशील पूँजी = ₹ 40,000

ज्ञात कीजिए :

(अ) चालू सम्पत्तियाँ

(ब) चालू दायित्व

4

Following information is given to you :

Current ratio = 1.5

Working capital = ₹ 40,000

Find out :

(a) Current assets and

(b) Current liabilities

15. वित्तीय गतिविधियों द्वारा रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए :

	2007 ₹	2008 ₹
समता अंश पूँजी	2,00,000	3,00,000
8% ऋणपत्र	1,00,000	50,000

2008/(Set : B)

(9)

2008/(Set : B)

प्रतिभूति प्रीमियम	20,000	30,000
बैंक ऋण (दीर्घकालीन)	—	1,00,000

अतिरिक्त सूचनाएँ :

ऋणपत्रों पर ब्याज का भुगतान किया ₹ 8,000। 4

From the information given below, calculate cash flows from financing activities :

	2007	2008
Equity share capital	2,00,000	3,00,000
8% Debentures	1,00,000	50,000
Securities Premium	20,000	30,000
Bank Loan (long term)	—	1,00,000

Additional Information :

Interest paid on debentures ₹ 8,000.

16. रोकड़ प्रवाह विवरण की कोई चार सीमाएँ लिखिए। 4

Give any **four** limitations of Cash Flow Statements.

17. 'ए' लिमिटेड ने जनता के लिए 100 वाले 10,000 अंश 10 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किये। भुगतान इस प्रकार देय है :

आवेदन पर	25
आबंटन पर	50 (प्रीमियम सहित)
पहली और अन्तिम याचना पर	35

सभी अंश जनता ने ले लिए। 100 अंशों पर आबंटन व अन्तिम याचना राशि को छोड़कर सभी अंशों पर देय राशि प्राप्त हो गई। कम्पनी ने इन अंशों को हरण कर लिया तथा 110 प्रति अंश के हिसाब से पुनः निर्गमित कर दिया।

कम्पनी की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए।

8

2008/(Set : B)

P. T. O.

(10)

2008/(Set : B)

A Ltd. offers 10,000 shares of ` 100 each at a premium of 10% per share to the public. The amount is payable as follows :

On Application	25
On Allotment	50 (Including Premium)
On First and Final call	35

All shares are subscribed. Company received all money except allotment & final call on 100 shares. These shares were forfeited and reissued as fully paid at ` 110 each. Pass necessary Journal Entries in the books of the company.

अथवा

OR

निम्न पर संक्षिप्त लेख लिखें : 8

- (अ) अतिनिर्गमन,
(ब) अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन।

Write short notes on :

- (a) Over-subscriptions,
(b) Issue of shares at premium.

18. 31 मार्च, 2016 को एक कम्पनी की पुस्तकों में निम्न शेष है :

8% ऋणपत्र	5,00,000
ऋणपत्र शोध कोष	5,00,000
ऋणपत्र शोध कोष विनियोग	5,00,000

2008/(Set : B)

(अंकित मूल्य ` 6,00,000)

उपरोक्त तिथि को विनियोगों को अंकित मूल्य के 80% पर बेच कर ऋणपत्रों का शोधन कर दिया गया।

ऋणपत्र शोध कोष व ऋणपत्र शोध कोष विनियोग खाता तैयार कीजिए।

8

The following are the balances in the books of a company as on 31st March, 2016 :

8% Debentures	5,00,000
Debenture redemption fund	5,00,000
Debenture redemption fund investment	5,00,000
(Face value ` 6,00,000)	

On the above date investments were sold @ 80% of face value.

Prepare Debenture Redemption Fund Account and Debentures Redemption Fund Investment Account on the redemption of debentures.

अथवा

OR

ऋणपत्रों के शोधन का सिंकिंग कोष विधि क्या है ? इसका वर्णन करें।

8

What is Sinking Fund Method for Debenture Redemption ? Explain it.

(12)

2008/(Set : B)

भाग - स

PART - C

(कम्प्यूटरीकृत लेखांकन)

(Computerised Accounting)

12. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन से क्या आशय है ? 1
Give concepts of Computerized Accounting.
13. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली क्या है ? 1
What do you mean by Computerized Accounting System (CAS) ?
14. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन, कम्प्यूटर-बेस लेखांकन से कैसे भिन्न है ? 4
How is computerized accounting different from computer-base accounting ?
15. डाटाबेस प्रबन्ध प्रणाली के उद्देश्यों का वर्णन करें। 4
Explain the objects of DBMS (Database Management System).
16. वैलिडेशन व वैरीफिकेशन पर संक्षिप्त नोट लिखें। 4
Write short notes on Validation & Verification.
17. डिजाइन-व्यू विधि से MS Access में पूछताछ करने के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। 8
Describe in steps the design view method to create a query in MS Access.

अथवा

OR

- रिपोर्ट तैयार करने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। 8
Explain the various method of creating reports.

2008/(Set : B)

18. निम्न में अन्तर करें :

8

- (अ) वर्कबुक व वर्कशीट,
- (ब) सेल रिफरेंस व सर्कुलर रिफरेंस।

Differentiate between :

- (a) Workbook and Worksheet,
- (b) Cell references and circular reference.

अथवा

OR

लेखा आवेदन को तैयार करने के विभिन्न वर्कशीट ऑपरेशन का वर्णन करें। 8

Describe various worksheet operations to develop an Accounting Application.



CLASS : 12th (Sr. Secondary)

Code No. 2008

Series : SS-M/2017

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SET : C

लेखाशास्त्र

ACCOUNTANCY

[Hindi and English Medium]

ACADEMIC/OPEN

(Only for Fresh Candidates)

(Evening Session)

Time allowed : 3 hours]

[Maximum Marks : 60

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित प्रश्न **25(11+7+7)** हैं।

*Please make sure that the printed question paper are contains **25(11+7+7)** questions.*

- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये **कोड नम्बर** तथा **सेट** को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।

*The **Code No.** and **Set** on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.*

- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.

- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/पन्ने न छोड़ें।

Don't leave blank page/pages in your answer-book.

- उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न काटें।

Except answer-book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike the written answer.

- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।

Candidates must write their Roll Number on the question paper.

2008/(Set : C)

P. T. O.

- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.**

सामान्य निर्देश :

- यह प्रश्न-पत्र **तीन** भागों में विभाजित है :
भाग-अ : अलाभकारी संस्थाएँ तथा साझेदारी खाते।
भाग-ब : कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण।
भाग-स : कम्प्यूटरीकृत लेखांकन।
- भाग-अ अनिवार्य है।** परीक्षार्थी अपनी इच्छा से **भाग-ब** तथा **भाग-स** में से कोई एक भाग हल करें।
- सभी** प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं।
- प्रश्न संख्या **11, 17 व 18** में आन्तरिक छूट उपलब्ध है।

General Instructions :

- This question paper is divided into **three** parts :
Part-A : Not for Profit and Partnership Accounts.
Part-B : Company Accounts and Analysis of Financial Statements.
Part-C : Computerised Accounting.
- Part-A is compulsory.** Candidates have to attempt any **one** part from **Part-B** and **Part-C** of their choice.
- All questions are to be attempted. Marks of each question are indicated against it.
- Internal choice is available in Question Nos. **11, 17 and 18.**

भाग - अ

PART - A

(अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते)

(Not for Profit and Partnership Accounts)

1. 'आय-व्यय खाता' कौन तैयार करता है ?

1

By whom an 'Income and Expenditure Account' is prepared ?

2. स्थिर पूँजी व परिवर्तनशील पूँजी में **एक** अन्तर लिखिए।

1

Give any **one** difference between Fixed Capital and Fluctuating Capital.

3. 'पी' और 'जे' साझेदार हैं। $\frac{1}{4}$ भाग के लिए 'बी' को प्रवेश दिया। नया लाभ-हानि अनुपात तथा

त्याग अनुपात की गणना करें।

1

P and J are partners. B is admitted for $\frac{1}{4}$ th share. What will be new ratio and also calculate sacrificing ratio ?

4. 'ए', 'बी' और 'सी' $\frac{1}{4} : \frac{3}{10} : \frac{9}{20}$ के अनुपात में लाभ बाँटते हुए साझेदार हैं। 'सी' के अवकाश

ग्रहण करने पर नया लाभ-हानि अनुपात क्या होगा तथा प्राप्ति अनुपात ज्ञात करें ?

1

A, B and C are partners sharing profits in the ratio of $\frac{1}{4} : \frac{3}{10} : \frac{9}{20}$. What will be new ratio on the retirement of C and also calculate gaining ratio ?

5. एक नये साझेदार को साझेदारी फर्म में कैसे प्रवेश दिया जा सकता है ?

1

How can a new partner be admitted ?

6. किन्हीं **दो** परिस्थितियों को लिखिए जब साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है।

1

Give **two** circumstances under which a partnership firm dissolved.

7. निम्न मदों को आप राज क्लब चण्डीगढ़ के स्थिति विवरण में कैसे दर्शाएँगे ?

ईनाम कोष

75,000

ईनाम दिये	10,000
ईनाम कोष के लिए दान	25,000
ईनाम कोष विनियोग पर ब्याज	5,000
ईनाम कोष विनियोग	60,000

4

How will you deal with the following items in Balance Sheet of Raj Club, Chandigarh ?

Prize Fund	75,000
Prize Given	10,000
Donation for Prize Fund	25,000
Interest on Prize Fund Investment	5,000
Prize Fund Investment	60,000

8. 'पी' और 'क्यू' लाभ-हानि को 3 : 2 के अनुपात में बाँटते हुए एक फर्म में साझेदार हैं। उनकी पूँजी क्रमशः ₹ 2,50,000 तथा ₹ 1,25,000 है। प्रत्येक साझेदार अपनी पूँजी पर 10% ब्याज पाने का अधिकारी है। 'पी' लाभ में से पूँजियों पर ब्याज घटाने के पश्चात लेकिन कोई भी कमीशन घटाने के पूर्व के लाभ का 10% कमीशन पाने का अधिकारी है। 'क्यू' लाभ में से पूँजियों पर ब्याज तथा सभी कमीशन घटाने के बाद के लाभों का 8% कमीशन पाने का अधिकारी है। वर्ष के लाभ पूँजी पर ब्याज लगाने से पूर्व ₹ 1,87,500 थे।

लाभ-हानि समायोजन खाता बनाइए।

4

P and Q are partners in a firm sharing profits & losses in the ratio of 3 : 2 with a capital of ₹ 2,50,000 and ₹ 1,25,000 respectively. Each partner is entitled to 10% interest on capital. P is entitled a commission of 10% on net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commission. Q is entitled a commission of 8% on net profit remaining after interest on capital and after charging all commission. The profits for the year prior to calculation of interest on capital was ₹ 1,87,500. Prepare Profit and Loss Appropriation Account.

2008/(Set : C)

(5)

2008/(Set : C)

9. 'ए', 'बी' और 'सी' 5 : 3 : 2 के अनुपात में लाभ बाँटते हुए साझेदार हैं। 'ए' अवकाश ग्रहण करता है और उसका हिस्सा 'बी' और 'सी' ने बराबर लिया। 'ए' के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन ₹ 20,000 किया गया। नया लाभ-हानि अनुपात ज्ञात कीजिए तथा बिना ख्याति खाता खोले ख्याति की प्रविष्टि कीजिए। 4

A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5 : 3 : 2. A retires and his share is taken up by B and C equally. At the time of A's retirement the goodwill of the firm valued at ₹ 20,000. Calculate New Sharing Profits ratio and pass Journal Entry for recording the goodwill without opening goodwill A/c.

10. 'एम' और 'आर' 2 : 3 के अनुपात में बाँटते हुए साझेदार हैं। फर्म के समापन के समय कुल दायित्व ₹ 1,50,000 और कुल सम्पत्तियाँ ₹ 7,50,000। सम्पत्तियों को बेचने पर ₹ 6,30,000 वसूल हुए। समापन व्यय ₹ 7,500 हैं। वसूली खाता तैयार कीजिए। 4

M and R partners sharing profits in the ratio of 2 : 3, at the time of dissolution total liabilities are ₹ 1,50,000 and total, assets are ₹ 7,50,000, amount realized on sale of assets is ₹ 6,30,000 and realization expenses are ₹ 7,500. Prepare Realization Account.

11. राम और मोहन 1 : 2 के अनुपात में लाभ बाँटते हुए साझेदार हैं। 31 मार्च, 2016 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार है :

उत्तरदायित्व	राशि (₹)	सम्पत्तियाँ	राशि (₹)
लेनदार	36,000	रोकड़	44,000
सामान्य संचय	12,000	देनदार 70,000	
लाभ-हानि खाता	12,000	घटाया, आयोजन <u>7,000</u>	63,000
पूँजी :		स्टॉक	40,000
राम 48,000			
मोहन 54,000	1,02,000	फिक्चर्स	15,000
	1,62,000		1,62,000

2008/(Set : C)

P. T. O.

(6)

2008/(Set : C)

कृष्ण को $\frac{1}{5}$ भाग के लिए प्रवेश दिया गया। निम्न शर्तों पर कृष्ण ₹ 60,000 पूँजी के रूप में और ₹ 24,000 ख्याति के रूप में लाया :

- स्टॉक का मूल्यांकन 10% कटौती पर किया, डूबत व संदिग्ध देनदारों पर आयोजन ₹ 2,000 में घटाया गया तथा फिक्चर्स का मूल्य शून्य होगा।
- एक बिजली का बिल ₹ 1,000 लिखने से रह गया और एक दावा ₹ 3,000 का फर्म पर है जिसको भविष्य में देना है।

पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूँजी खाता तथा नया स्थिति विवरण तैयार कीजिए।

8

Ram and Mohan are partners profits ratio 1 : 2. On 31st March, 2016, their Balance Sheet as follows :

Liabilities	Amount	Assets	Amount
Creditors	36,000	Cash	44,000
General Reserve	12,000	Debtors 70,000	
P & L A/c	12,000	Less : Prov. <u>7,000</u>	63,000
Capital :		Stock	40,000
Ram 48,000		Fixtures	15,000
Mohan 54,000	1,02,000		
	1,62,000		1,62,000

Krishan is given $\frac{1}{5}$ th share in profits of the firm. Krishan brings in ₹ 60,000 as his capital and ₹ 24,000 for goodwill in the following terms :

- Stock to be discounted at 10% and provision for doubtful debts be reduced by ₹ 2,000 and fixtures are valueless.
- A bill for ₹ 1,000 for electric charges has been omitted to be recorded and there is a claim against the firm for damages to ₹ 3,000. This will have to be paid in future.

2008/(Set : C)

(7)

2008/(Set : C)

Prepare Revaluation Account, Partners Capital Account and New Balance Sheet of the firm.

अथवा

OR

आप त्याग अनुपात एवं प्राप्ति अनुपात से क्या समझते हैं ? इन दोनों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

8

What do you understand by sacrificing ratio and gaining ratio ? What is the difference between two ?

भाग - ब

PART - B

(कम्पनी खाते तथा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

(Company Accounts and Analysis of Financial Statements)

12. वित्तीय विवरणों से आप क्या समझते हैं ? 1

What do you mean by Financial Statement ?

13. प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है ? 1

What is trend analysis ?

14. निम्न सूचनाओं से स्टॉक आवर्त अनुपात ज्ञात करें : 4

प्रारम्भिक स्टॉक	9,000
अन्तिम स्टॉक	11,000
क्रय	23,000
मजदूरी	7,000
बिक्री	40,000
आन्तरिक ढुलाई	2,000

2008/(Set : C)

P. T. O.

Calculate stock turnover ratio from the following information :

Opening Stock	9,000
Closing Stock	11,000
Purchases	23,000
Wages	7,000
Sales	40,000
Carriage inward	2,000

15. निम्न सूचनाओं से 'विनियोग गतिविधियों' से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करें :

1-4-2015 31-3-2016

मशीनरी	1,00,000	1,20,000
संचित हास	30,000	50,000

वर्ष के दौरान एक मशीन जिसका मूल्य ` 50,000 था और जिस पर संचित हास ` 30,000 है, को ` 26,000 में बेच दिया गया। 4

Calculate net cash flows from investing activities from the following informations :

1-4-2015 31-3-2016

Machinery	1,00,000	1,20,000
Accumulated Depreciation	30,000	50,000

During the year, a machine costing ` 50,000 & Accumulated depreciation on it was ` 30,000, was sold for ` 26,000.

16. रोकड़ प्रवाह विवरण के महत्त्व का वर्णन करें। 4

Mention the merits of cash flow statement.

2008/(Set : C)

(9)

2008/(Set : C)

17. राम लिमिटेड ने ` 10 वाले 30,000 अंशों को 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। राशि इस प्रकार देय है :

8

आवेदन पर 4

आबंटन पर 4 (प्रीमियम सहित)

शेष राशि पहली व अन्तिम याचना पर।

सभी अंशों पर अभिदान प्राप्त हुआ। कम्पनी ने सभी देय राशि, 300 अंशों पर आबंटन और माँग राशि के अतिरिक्त प्राप्त की। इन अंशों को जब्त कर लिया गया और ` 8 प्रति अंश पूर्णदत्त पुनःनिर्गमित कर दिया। कम्पनी की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

Ram Ltd. offers 30,000 share of ` 10 each at a premium of 10% to the public. The amount is payable as follows :

On Application 4

On Allotment 4 (including premium)

and Balance on first & final call.

All shares are subscribed. Company received all money except allotment and first & final call money on 300 shares. These shares were forfeited and re-issued as fully paid up at ` 8 each. Pass necessary Journal Entries in the books of the company.

अथवा

OR

संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :

8

(अ) अंशों का आबंटन,

(ब) अग्रिम याचना।

2008/(Set : C)

P. T. O.

Write short notes :

- (a) Allotment of shares,
- (b) Call in advance.

18. एक कम्पनी की खाता पुस्तकों में निम्न शेष उपलब्ध है :

12% ऋणपत्र 20,00,000

ऋणपत्र शोधन निधि 20,00,720

ऋणपत्र शोधन निधि विनियोग

` 8,00,000, 9% ऋणपत्र ` 7,60,000

` 14,00,000, 8% सरकारी प्रपत्र ` 12,40,720

उपर्युक्त तिथि को विनियोगों को इस प्रकार बेचा गया :

9% ऋणपत्र सम मूल्य पर एवं 8% सरकारी प्रपत्र को अंकित मूल्य के 90% पर, ऋणपत्रों को यथानुसार शोधन किया गया।

कम्पनी की पुस्तकों में ऋणपत्र शोधन निधि खाता तथा ऋणपत्र शोधन निधि विनियोग खाता तैयार करें। 8

The following are the balances in the books of a company as on 31st March, 2015 :

12% Debentures 20,00,000

Debenture redemption fund 20,00,720

Debenture redemption fund investment

` 8,00,000, 9% Debentures ` 7,60,000

2008/(Set : C)

` 14,00,000, 8% Govt. Securities ` 12,40,720

On the above date above investments were sold as follows :

9% debentures at par and 8% Govt. securities at 90% of its face value, debentures were redeemed accordingly.

Prepare Debentures Redemption Fund Account and Debenture Redemption Fund Investment Account.

अथवा

OR

खुले बाजार की क्रियाओं से ऋणपत्रों के शोधन की प्रक्रिया को समझाइए। 8

Explain the procedure of debentures redemption by open market operations.

भाग - स

PART - C

(कम्प्यूटरीकृत लेखांकन)

(Computerised Accounting)

- | | |
|---|---|
| 12. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन क्या है ? | 1 |
| What is Computerized Accounting ? | |
| 13. डाटा एन्ट्री क्या है ? | 1 |
| What is Data Entry ? | |
| 14. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन की विशेषताओं का वर्णन करें। | 4 |
| Explain the features of Computerized Accounting. | |
| 15. डाटाबेस प्रबन्ध के चार उद्देश्यों का वर्णन करें। | 4 |

Write any **four** objects of DBMS.

16. निम्न पर संक्षिप्त लेख लिखें : 4

- (अ) वैलिडेशन एवं वेरीफिकेशन,
- (ब) समायोजित प्रविष्टि।

Write short notes on the following :

- (a) Validation & Verification,
- (b) Adjusting Entry.

17. पूछताछ क्या है ? पूछताछ बनाने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। 8

What is Query ? Describe the various method creating query.

अथवा

OR

फार्म बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें। 8

Describe the procedure for creating form.

18. निम्न पर संक्षिप्त लेख लिखें : 8

- (अ) स्प्रेडशीट की विशेषताओं का वर्णन करें।
- (ब) स्प्रेडशीट के उपयोगों का वर्णन करें।

Write short notes on the following :

- (a) Features of ES (Electronic Spread Sheet).
- (b) Application of Electronic Spread Sheet.

अथवा

2008/(Set : C)

(13)

2008/(Set : C)

OR

आब्सोल्यूट सेल रिफरेंस, रिलेटिव सेल रिफरेंस से कैसे भिन्न है ? यह स्प्रेड शीट के लिए विशेष आवश्यक क्यों है ?

8

How does the absolute cell reference, differ from relative cell reference ?
Why is this distinction necessary in spread sheet ?



2008/(Set : C)

P. T. O.

CLASS : 12th (Sr. Secondary)

Code No. 2008

Series : SS-M/2017

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SET : D

लेखाशास्त्र

ACCOUNTANCY

[Hindi and English Medium]

ACADEMIC/OPEN

(Only for Fresh Candidates)

(Evening Session)

Time allowed : 3 hours]

[Maximum Marks : 60

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित प्रश्न **25(11+7+7)** हैं।

*Please make sure that the printed question paper are contains **25(11+7+7)** questions.*

- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये **कोड नम्बर** तथा **सेट** को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।

*The **Code No.** and **Set** on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.*

- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.

- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/पन्ने न छोड़ें।

Don't leave blank page/pages in your answer-book.

- उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न काटें।

Except answer-book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike the written answer.

- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।

Candidates must write their Roll Number on the question paper.

2008/(Set : D)

P. T. O.

- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.**

सामान्य निर्देश :

- यह प्रश्न-पत्र **तीन** भागों में विभाजित है :
भाग-अ : अलाभकारी संस्थाएँ तथा साझेदारी खाते।
भाग-ब : कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण।
भाग-स : कम्प्यूटरीकृत लेखांकन।
- भाग-अ अनिवार्य है।** परीक्षार्थी अपनी इच्छा से **भाग-ब** तथा **भाग-स** में से कोई एक भाग हल करें।
- सभी** प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं।
- प्रश्न संख्या **11, 17 व 18** में आन्तरिक छूट उपलब्ध है।

General Instructions :

- This question paper is divided into **three** parts :
Part-A : Not for Profit and Partnership Accounts.
Part-B : Company Accounts and Analysis of Financial Statements.
Part-C : Computerised Accounting.
- Part-A is compulsory.** Candidates have to attempt any **one** part from **Part-B** and **Part-C** of their choice.
- All questions are to be attempted. Marks of each question are indicated against it.
- Internal choice is available in Question Nos. **11, 17 and 18.**

भाग - अ

PART - A

(अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते)

(Not for Profit and Partnership Accounts)

2008/(Set : D)

1. लाभ-व्यय खाते तथा प्राप्ति व भुगतान खाते में एक अन्तर लिखें। 1

Give one difference between Income & Expenditure A/c and Profit & Loss Account.

2. साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा बताएँ। 1

Give the definition of partnership according Sec. 4 of Indian Partnership Act, 1932.

3. 'एक्स' और 'वाई' 3 : 2 के अनुपात में लाभ बाँटते हुए साझेदार हैं। 'जेड' को लाभ में $\frac{1}{4}$

हिस्से के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया गया। 'जेड' ने अपना हिस्सा 'एक्स' तथा 'वाई' से बराबर प्राप्त किया है। नया अनुपात व त्याग अनुपात की गणना करें। 1

X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3 : 2. Z was admitted with $\frac{1}{4}$ share in profits which he acquires equally from X and Y.

Calculate the sacrificing ratio and New Ratio.

4. 'ए', 'बी' और 'सी' 4 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ बाँटते हुए साझेदार हैं। 'ए' के अवकाश ग्रहण करने पर 'बी' व 'सी' का अनुपात 3 : 1 रहेगा। लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करें। 1

A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 4 : 2 : 1. If the New Ratio of B & C is 3 : 1 on the retirement of A. Calculate gaining ratio.

5. आहरण से आप क्या समझते हैं ? 1

Write the meaning of drawings.

6. वसूली खाते तथा पुनर्मूल्यांकन खाते में एक अन्तर लिखें। 1

Write **one** difference between Realization Account and Re-Valuation Account.

7. 31 दिसम्बर, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए क्लब के प्राप्ति तथा भुगतान खाते के भुगतान पत्र में वेतन की राशि ` 24,000 दिखाई गई है।

अतिरिक्त सूचनाएँ :

भुगतान किए गए वेतन में वर्ष 2014 के ` 1,600 और 2016 के ` 2,400 सम्मिलित हैं। वर्ष 2015 का अदत्त वेतन ` 3,200 है। वेतन से सम्बन्धित आँकड़े वर्ष 2015 को आय-व्यय खाते में दर्शाएँ।

4

In the receipt and payment account of a club for the year ended December 31, 2015, the amount of salaries shown in the payment side is ` 24,000.

Additional Informations :

Salaries paid include ` 1,600 for the year 2014 and ` 2,400 for the year 2016. Outstanding salaries for the year 2015 amounting to ` 3,200.

Show the relevant date of salaries in the income and expenditure account for the year 2015.

8. 'ए' तथा 'बी' लाभ-हानि 3 : 2 में बाँटते हुए साझेदार हैं। उनकी पूँजी क्रमशः ` 50,000 तथा ` 25,000 है। प्रत्येक साझेदार अपनी पूँजी पर 10% ब्याज पाने का अधिकारी है। 'ए' लाभ में से पूँजियों पर ब्याज घटाने के पश्चात् लेकिन कोई भी कमीशन घटाने के पूर्व के लाभ का 10% कमीशन पाने का अधिकारी है। 'बी' लाभ में से पूँजियों पर ब्याज तथा सभी कमीशन घटाने के बाद के लाभों का 8% कमीशन पाने का अधिकारी है। वर्ष के लाभ पूँजी पर ब्याज लगाने से पूर्व ` 37,500 थे।

लाभ-हानि समायोजन खाता बनाइए।

4

A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2 with a capital of ` 50,000 and ` 25,000 respectively. Each partner is entitled to 10% interest on capital. 'A' is entitled a commission of 10% on net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commission. 'B' is entitled a Commission of 8% of net profit remaining deducting interest on capital and after charging all commission. The profits for the year prior to calculation of interest on capital was ` 37,500.

Prepare profit and loss appropriation account.

9. 'ए' और 'बी' 3 : 2 के अनुपात में लाभ बाँटते हुए एक फर्म में साझेदार हैं। उनकी पूँजी क्रमशः ₹ 1,60,000 तथा ₹ 1,00,000 है। 'सी' को नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश दिया। 'सी' अपने $\frac{1}{5}$ भाग के लिए ₹ 1,20,000 पूँजी के रूप में लाता है। नये लाभ-हानि अनुपात की गणना करें तथा बिना ख्याति खाता खोले ख्याति से सम्बन्धित प्रविष्टि कीजिए। 4

A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2. Their capital are ₹ 1,60,000 and ₹ 1,00,000 respectively. They admit 'C' as a new partner. 'C' brings in ₹ 1,20,000 as this capital $\frac{1}{5}$ th share in the profits. Calculate New Sharing Profits ratio and Pass Journal Entry for recording the goodwill without opening goodwill A/c.

10. निम्न सूचनाओं ने फर्म के समापन पर रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए : 4

- (i) फर्म की कुल सम्पत्तियाँ ₹ 3,00,000 और कुल दायित्व ₹ 1,00,000 है।
(ii) सम्पत्तियों को बेचने से वसूल हुए ₹ 2,50,000 तथा दायित्वों को 10% कटौती पर भुगतान किया।

Pass Necessary Journal entries at the time of dissolve of the partnership firm, from the following informations :

- (i) Total assets of the firm are ₹ 3,00,000 and total liabilities are ₹ 1,00,000.
(ii) Amount realized on sale of assets ₹ 2,50,000 and payment paid outsiders at a discount of 10%.

11. 1 जनवरी, 2016 को 'एक्स', 'वाई' और 'जेड' का चिट्ठा इस प्रकार है जो कि लाभों को अपने पूँजी अनुपात में बाँटते हैं :

उत्तरदायित्व	राशि (₹)	सम्पत्तियाँ	राशि (₹)
विविध लेनदार	10,000	बैंक शेष	8,000
अदत्त व्यय	1,000	विविध देनदार : 7,500	
लाभ-हानि खाता	7,500	घटाया : आयोजन 500	7,000

(6)

2008/(Set : D)

पूँजी :			
‘एक्स’	22,500	स्टॉक	17,500
‘वाई’	15,000	विनियोग	6,000
‘जेड’	7,500	स्थायी सम्पत्तियाँ	25,000
	63,500		63,500

उपरोक्त तिथि को जेड निम्नलिखित शर्तों पर अवकाश ग्रहण करता है :

- स्थायी सम्पत्तियों का मूल्य 10% से कम किया जाये।
- विनियोगों का मूल्यांकन ` 5,000 पर किया जाये।
- समस्त देनदार अच्छे हैं।
- अदत्त व्ययों को ` 300 से बढ़ाया जाये।
- विनियोगों पर ` 900 ब्याज अर्जित हुआ।
- फर्म की ख्याति का मूल्यांकन ` 4,500 पर किया जाए।

पुनर्मूल्यांकन खाता, पूँजी खाते तथा संशोधक चिट्ठा तैयार करें। 8

The following is the Balance Sheet of X, Y and Z on 1st January, 2016, distribute the profit in capital ratio :

Liabilities	Amount	Assets	Amount
Sundry creditors	10,000	Bank Balance	8,000
Outstanding Exp.	1,000	Sundry Debtors :	
Profit & Loss A/c	7,500	7,500	
		Less-Provision 500	7,000
Capital :			
X	22,500	Stock	17,500
Y	15,000	Investment	6,000
Z	7,500	Fixed Assets	25,000

2008/(Set : D)

	63,500	63,500
--	--------	--------

Z retires on the above date on the following conditions :

- (i) Fixed Assets be reduced by 10%.
- (ii) Investment are revalued at ` 5,000.
- (iii) Debtors were all good.
- (iv) Outstanding exp. be increased by ` 300.
- (v) Interest accrued on investment ` 900.
- (vi) Goodwill of the firm be valued at ` 4,500.

Prepare Revaluation Account, Capital Accounts and Revised Balance Sheet.

अथवा

OR

नए साझेदार के प्रवेश के समय आप ख्याति (प्रीमियम) का लेखांकन किस प्रकार करेंगे ? यदि :
8

- (अ) नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद लाता है।
- (ब) नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद में नहीं लाता है।

Explain the accounting treatment of goodwill (premium) at the time of admission of a new partner, when :

- (a) The partner brings the share of goodwill in cash.
- (b) The partner does not bring his share in cash.

भाग - ब

PART - B

(कम्पनी खाते तथा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

12. स्वामित्व समता क्या है ? 1

What is owner's equity ?

13. किन्हीं **दो** वित्तीय विवरणों का नाम लिखें। 1

Give any **two** names of Financial Statements.

14. निम्न सूचनाओं से स्टॉक आवर्त अनुपात की गणना कीजिए : 4

,

प्रारम्भिक स्टॉक	90,000
अन्तिम स्टॉक	1,10,000
क्रय	2,30,000
मजदूरी	70,000
विक्रय	4,00,000
आन्तरिक ढुलाई	20,000

Calculate stock turnover ratio from the following information :

,

Opening Stock	90,000
Closing Stock	1,10,000
Purchases	2,30,000
Wages	70,000

2008/(Set : D)

	(9)
Sales	4,00,000
Carriage inward	20,000

15. निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए :

	31-3-2014	31-3-2015
	,	,
भवन (w.d.v.)	30,000	37,500

अतिरिक्त सूचनाएँ :

- (i) ₹ 5,000 लागत का भवन, जिस पर हास ₹ 1,500 काटा गया, ₹ 3,000 में बेच दी।
(ii) 31-3-2015 को समाप्त वर्ष के लिए भवन पर हास ₹ 2,500 लगाया गया है।

4

Calculate net cash flows from investing activities from the following information :

	31-3-2014	31-3-2015
	,	,
Building (w.d.v.)	30,000	37,500

Additional Information :

- (i) Building costing ₹ 5,000 on which ₹ 1,500 had accumulated as depreciation sold for ₹ 3,000.
(ii) Depreciation charged on building for the year ended 31-3-2015, ₹ 2,500.

16. रोकड़ प्रवाह विवरण की किन्हीं चार सीमाओं का वर्णन करें। 4

Mention any **four** limitations of cash flow statement.

17. एक कम्पनी ने ` 10 वाले 5,000 समता अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। देय इस प्रकार हैं :

आवेदन पर ` 3;

आबंटन पर ` 3 (प्रीमियम सहित) तथा

पहली और अन्तिम किस्त ` 5।

एक अंशधारी जिसके पास 300 अंश थे, उसने पहली व अन्तिम किस्त का भुगतान नहीं किया। उसके अंशों को जब्त कर लिया गया और ` 7 प्रति अंश पूर्णदत्त पुनः निर्गमित कर दिए गए। कम्पनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। 8

A company makes an issue of 5,000 equity share of ` 10 each at 10% premium. The amount is payable as follows :

On Application ` 3;

On Allotment ` 3 (including premium) and

On First & Final call ` 5.

A shareholder holding 300 shares did not pay first and final call. His shares were forfeited and re-issued at ` 7 per share fully paid up.

Pass Necessary Journal Entries in the book of the company.

अथवा

OR

निम्न पर संक्षिप्त लेख लिखें :

8

(अ) अंशों का आनुपातिक आबंटन,

(ब) जब्त किए गए अंशों का पुनः निर्गमन।

Write short notes on the following :

(a) Pro-rata Allotment of shares,

(b) Re-issue of forfeited shares.

18. 1 जनवरी, 2016 को एक कम्पनी के खातों में निम्न शेष है :

2008/(Set : D)

12% ऋणपत्र	4,00,000
सिंकिंग फण्ड	3,00,000
सिंकिंग फण्ड विनियोग (अंकित मूल्य ` 3,40,000)	3,00,000

कम्पनी ने उपरोक्त तिथि को ऋणपत्रों को शोधन करने के लिए सिंकिंग फण्ड विनियोग 5% कटौती पर बेच दिए। सिंकिंग फण्ड खाता व सिंकिंग फण्ड विनियोग तैयार कीजिए। 8

The following balances appeared in the books of a company on 1st Jan. 2016 :

12% Debentures	4,00,000
Sinking Fund	3,00,000
Sinking Fund Investment	3,00,000
(Face value ` 3,40,000)	

The company carried out the redemption by sale of Sinking Fund Investment at 5% discount on the above date. Prepare Sinking Fund Investment and Sinking Fund Account.

अथवा

OR

ऋणपत्रों का परिवर्तन द्वारा शोधन से आपका क्या अभिप्राय है ? एक उदाहरण लेकर जर्नल प्रविष्टियों द्वारा स्पष्ट करें। 8

What do you mean by redemption of debentures by conversion ? Explain with the help of Journal Entries.

भाग - स

PART – C**(कम्प्यूटरीकृत लेखांकन)****(Computerised Accounting)**

12. डाटाबेस इन्टरफेस से आप क्या समझते हैं ? 1
What do you mean by Database Interface ?
13. डाटा वैलिडेशन क्या है ? 1
What is Data Validation ?
14. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली से आप क्या समझते हैं ? इस प्रणाली के मैनुअल लेखांकन पर किन्हीं **तीन** लाभों का वर्णन करें। 4
What do you mean by Computerized Accounting System ? Give **three** advantages of Computerized Accounting System over the Manual System.
15. डाटाबेस प्रबन्ध प्रणाली से आप क्या समझते हैं ? 4
What do you mean by Database Management ?
16. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली में लाभ-हानि खाता कैसे बनाया जाता है ? 4
How Profit and Loss Account is prepared in Computerized Accounting System ?
17. रिपोर्ट बनाने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। 8
Explain the different methods of preparing 'Report'.

अथवा**OR**

- पूछताछ बनाने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। 8

2008/(Set : D)

Explain the different methods of creating Query.

18. स्प्रेडशीट क्या है ? इसकी विशेषताएँ दीजिए। 8

What is Spread Sheet ? Give its features.

अथवा

OR

वर्कशीट में एक कॉलम को मिटाने तथा कॉलम डालने की प्रक्रिया को समझाइए। 8

Explain the process of inserting and deleting a column in worksheet.

